

# Lev

## Chapter 24

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: 1  
और-बोला यहोवा से-मूसा कहते-हुए  
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

וְצִוְּ אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּקְחוּ אֵלֵיהֶם טֶהֱלֵם וַיִּקְחוּ אֶת-לֶמְאֹר 2  
आज्ञा-दे को-पुत्रों इस्राएल-के और-लाएं तेरे-पास और-लाएं तेल दीपक-के-लिए  
[H0853](#) [H6680](#) [H3947](#) [H3478](#) [H8081](#) [H0413](#) [H2132](#) [H2134](#) [H3795](#) [H3974](#)  
וְהֵעֵלְתָּ לַיהוָה נֵר נִרְתָּר: 2  
जलाने-के-लिए दीप निरंतर  
[H8548](#) [H5927](#)

“इस्राएल के लोगों को कोल्हू से निकाला हुआ जैतून का शुद्ध तेल अपने पास लाने का आदेश दो। वह तेल दीपकों के लिए है। ये दीपक बिना बुझे जलते रहने चाहिए।

מִחוּץ לַפְּרֹכֶת הָעֹרֹת בְּאֹהֶל מוֹעֵד יַעֲרֹף אֶת־וַיִּקְחוּ אֶת־אֹהֶרֹן מֵעֶרְב־עֵדֶן לְפָנָי 3  
बाहर लीचवाले-पर्दे-के साक्षी तंबू-में मिलाप सजाए उसे हासून सामने सुबह तक-शाम-से  
[H2351](#) [H6532](#) [H5715](#) [H0168](#) [H4150](#) [H0853](#) [H0175](#) [H6153](#) [H5704](#) [H1242](#) [H6440](#)  
וְהָיָה יְהוָה נִרְתָּר עֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם: 3  
यहोवा-के निरंतर सदा-के-लिए विधि निरंतर तुम्हारी-पीढ़ियों-में  
[H3068](#) [H8548](#) [H2708](#) [H5769](#) [H1755](#)

हासून यहोवा के मिलापवाले तंबू में साक्षीपत्र के पर्दे के आगे सन्ध्या समय से प्रातःकाल तक दीपकों को जलाये रखेगा। यह नियम सदा सदा के लिए है।

עַל הַמִּזְבֵּחַ הַטָּהוֹר יַעֲרֹף אֶת־הַנְּגִרוֹת לְפָנָי יְהוָה נִרְתָּר: 4  
पर दीपस्तंभ शुद्ध सजाए को-दीपों सामने यहोवा-के निरंतर  
[H4501](#) [H2889](#) [H0853](#) [H6440](#) [H3068](#) [H8548](#)

हासून को सोने की दीपाधार पर यहोवा के सामने दीपकों को सैव जलता हुआ रखना चाहिए।

וְלִקְחָתָּ אֹרֶז מֵאֶפְרַיִם וְאֶת־אֹתָהּ שִׁתִּים עֶשְׂרֵה אֲתָהּ אֶת־הַחֶלֶה הָאֶחָד: 5  
और-ले मैदा और-पका और-उसे बारह दस रोटियां दो दशमांश हो रोटि रोटि एक  
[H3947](#) [H5560](#) [H0644](#) [H0853](#) [H8147](#) [H6240](#) [H2471](#) [H8147](#) [H6241](#) [H1961](#) [H2471](#) [H0259](#)

“अच्छा महीन आटा लो और उसकी बारह रोटियाँ बनाओ। हर एक रोटि के लिए चारि क्वार्ट आटे का उपयोग करो।

וְשִׂמְתָּ אוֹתָם שְׁתֵּים מֵעֲרֹכֹת שֹׁשׁ הַמְּעֻרְכֹת עַל הַשֻּׁלְחָן הַטָּהוֹר לְפָנָי יְהוָה: 6  
और-रख उन्हें दो पंक्तियों-में छह पंक्तियों-में पर मेज़ शुद्ध सामने यहोवा-के  
[H0853](#) [H8147](#) [H4634](#) [H8337](#) [H4635](#) [H7979](#) [H2889](#) [H6440](#) [H3068](#)

उन्हें दो पंक्तियों में सुनहरी मेज़ पर यहोवा के सामने रखो। हर एक पंक्ति में छः रोटियाँ होंगी।

וְנָתַתָּ עֲלֵהּ הַמְּעֻרְכֹת לְבִנְיָהּ וְהִיְתָה לְלֶחֶם רֹתִי לְאֻזְכָּרָה אֲשֶׁר לַיהוָה: 7  
और-दे पर-पंक्ति लोबान शुद्ध और-हो रोटि-के-लिए स्मरण-भाग-के-लिए अग्निबलि यहोवा-के-लिए  
[H5414](#) [H4635](#) [H3828](#) [H2134](#) [H1961](#) [H3899](#) [H234](#) [H0801](#) [H3068](#)

हर एक पंक्ति पर शुद्ध लोबान रखो। यह यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट के सम्बन्ध में यहोवा को याद दिलाने में सहायता करेगा।

בְּרִית	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	מֵאֵת	תָּמִיד	יְהוָה	לִפְנֵי	יַעֲרֹכְנוּ	הַשַּׁבָּת	בְּיָמֵם	הַשַּׁבָּת	בְּיָמֵם	8
वाचा	इस्राएल-के	पुत्रों-	से	निरंतर	यहोवा-के	सामने	सजाए	शबबत-के	दिन-में	शबबत-के	दिन-में	
<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H7676</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7676</a>	<a href="#">H3117</a>	

עוֹלָם:  
सदा-के-लिए  
[H5769](#)

हर एक सब्त दिवस को हारून रोटियों को यहोवा के सामने क्रम में रखेगा। इसे सदैव करना चाहिए। इस्राएल के लोगों के साथ यह वाचा सदैव बनी रहेगी।

הוּא	קִדְשִׁים	קִדָּשׁ	כִּי	קִדָּשׁ	בְּמָקוֹם	וְאֹכְלָהוּ	וּלְבָנָיו	לְאֶהֱרָן	וְהַיְהוָה	9
वह	परमपवित्र	पवित्र	क्योंकि	पवित्र	स्थान-में	और-खाएँ	और-उसके-पुत्रों-के-लिए	हारून-के-लिए	और-हो	
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>		<a href="#">H6918</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H0398</a>		<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H1961</a>	

ס — עוֹלָם: सदा-के-लिए  
חֻק- יְהוָה: यहोवा-की  
מִאֲשֵׁי אֱמִיבִלִיּוֹת-מִן: अग्निबलियों-से  
לְוֹ: उसके-लिए  
[H5769](#) [H2706](#) [H3068](#) [H0801](#)

वह रोटी हारून और उसके पुत्रों की होगी। वे रोटियों को पवित्र स्थान में खायेंगे। क्यों?क्योंकि वह रोटी यहोवा को आग द्वारा चढ़ाई गई भेंटों में से है। वह रोटी सदैव हारून का हिस्सा है।”

יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	בֵּתוֹ	מִצְרַיִם	אִישׁ	בֶּן-	וְהוּא	יִשְׂרָאֵלִית	אִשָּׁה	בֶּן-	וַיֵּצֵא	10
इस्राएल-के	पुत्रों	बीच-में	मिस्री	पुरुष-का	पुत्र-	और-वह	इस्राएली	स्त्री-का	पुत्र-	और-निकला	
<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H4713</a>	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3482</a>	<a href="#">H0802</a>		<a href="#">H3318</a>	

הַיִּשְׂרָאֵלִי: इस्राएली  
וְאִישׁ: और-पुरुष  
הַיִּשְׂרָאֵלִית: इस्राएली-स्त्री-का  
בֶּן: पुत्र  
בְּמִנְהָ: छावनी-में  
וַיֵּצֵא: और-लड़े  
[H3481](#) [H0376](#) [H3482](#) [H4264](#)

एक इस्राएली स्त्री का पुत्र था। उसका पिता मिस्री था। इस्राएली स्त्री का यह पुत्र इस्राएली था। वह इस्राएली लोगों के बीच में घूम रहा था और उसने डेरे में लड़ना आरम्भ किया।

מֹשֶׁה	אֶל-	אֵתוֹ	וַיָּבִיאוּ	וַיִּקְלָל	הַשָּׁם	אֶת-	הַיִּשְׂרָאֵלִית	הָאִשָּׁה	בֶּן-	וַיִּקַּב	11
मूसा	के-पास-	उसे	और-लाए	और-शाप	नाम	को-	इस्राएली	स्त्री-का	पुत्र-	और-छेदा	
<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H7043</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3482</a>	<a href="#">H0802</a>			

וְשָׁם: और-नाम  
אִמּוֹ: उसकी-मां-का  
שְׁלֹמִית: शलोमीत  
בֵּת-: पुत्री-  
דִּבְרֵי: दिब्री-की  
לְמִטָּה-: गोत्र-से-  
דָּן: दान  
[H1835](#) [H4294](#) [H1704](#) [H1323](#) [H0517](#) [H8034](#)

इस्राएली स्त्री के लड़के ने यहोवा के नाम के बारे में बुरी बातें कहनी शुरू कीं। इसलिए लोग उस पुत्र को मूसा के सामने लाए। (लड़के की माँ का नाम शलोमीत था जो दान के परिवार समूह से दिब्री की पुत्री थी।)

וַיִּנְחָהוּ	בְּמִשְׁמַר	לְפָרֵשׁ	לָהֶם	עַל-	פִּי	יְהוָה:	פ	12
और-रखा	पहरे-में	स्पष्ट-करने-के-लिए	उनके-लिए	पर-	मुंह	यहोवा-के	—	
<a href="#">H3240</a>	<a href="#">H4929</a>		<a href="#">H1992</a>		<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H3068</a>		

लोगों ने लड़के को कैदी की तरह पकड़े रखा और तब तक प्रतीक्षा की, जब तक यहोवा का आदेश उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो गया।

וַיְדַבֵּר	יְהוָה	אֶל-	מֹשֶׁה	לְאֹמַר:	13
और-बोला	यहोवा	से-	मूसा	कहते-हुए	
<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0559</a>	

तब यहोवा ने मूसा से कहा,

הוֹצֵא	אֶת-	הַמִּקְלָל	אֶל-	מִחוּץ	לְמִנְחָה	וּסְמָכוֹ	כָּל-	הַשְּׂמָעִים	אֶת-	יְדִיהֶם	14
ले-जा	को-	शाप-देनेवाले	के-पास-	बाहर	छावनी-के	और-रखें	सब-	सुननेवाले	को-	अपने-हाथ	
<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7043</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2351</a>	<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H5564</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3027</a>	

עַל-: पर-  
רִאשׁוֹ: उसके-सिर  
וְרַגְמוֹ: और-पथराओ  
אֵתוֹ: उसे  
כָּל-: सब-  
הָעֵדָה: मंडली  
[H5712](#) [H3605](#) [H0853](#) [H7275](#)

“उस व्यक्ति को डेरे के बाहर एक स्थान पर लाओ, जिसने शाप दिया है। तब उन सभी लोगों को एक साथ बुलाओ जिन्होंने उसे शाप देते सुना है। वे लोग एक साथ बुलाओ जिन्होंने उसे शाप देते सुना है। वे लोग अपने हाथ उसके सिर पर रखेंगे। और तब सभी लोग उस पर पत्थर मारेंगे और उसे मार डालेंगे।

וְנָשָׂא	אֶל־הָיוֹ	יִקְלֵל	כִּי-	אִישׁ	אִישׁ	לֵאמֹר	תִּבְרַךְ	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	וְאֵל-	15
और-उठाए	अपने-परमेश्वर-को	शाप-दे	यदि-	पुरुष	पुरुष	कहते-हुए	बोल	इस्राएल-के	पुत्रों	और-से-	
<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7043</a>		<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0413</a>	

חָטְאוֹ  
अपना-पाप  
[H2399](#)

तुम्हें इस्राएल के लोगों से कहना चाहिए: यदि कोई व्यक्ति अपने परमेश्वर को शाप देता है तो उस व्यक्ति को दण्ड मिलना चाहिए।

כִּגְרֹ	הַעֲדָה	כֹּל-	בּוֹ	יִרְגְּמוּ-	רְגוּם	יּוֹמָת	מוֹת	יְהוָה	שֵׁם-	וְנִקְבַּ	16
परदेशी-जैसा	मंडली	सब-	उसे	पथराएं-	पथराना	मरे	मरना	यहोवा-के	नाम-	और-छेदनेवाला	
<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H7275</a>	<a href="#">H7275</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8034</a>		
						יּוֹמָת:	שֵׁם	בְּנִקְבוֹ-	כְּאֲזַח		
						मरे	नाम	उसके-छेदने-में-	देशी-जैसा		
						<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H8034</a>		<a href="#">H0249</a>		

कोई व्यक्ति, जो यहोवा के नाम के विरुद्ध बोलता है, अवश्य मार दिया जाना चाहिए। सभी लोगों को उसे पत्थर मारने चाहिए। विदेशी को वैसे ही दण्ड मिलना चाहिए जैसे इस्राएल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यहोवा के नाम को अपशब्द कहता है तो उसे अवश्य मार देना चाहिए।

יּוֹמָת:	מוֹת	אָדָם	נֶפֶשׁ	כָּל-	יָכָה	כִּי	וְאִישׁ	17
मरे	मरना	आदमी-के	प्राण	किसी-	मारे	यदि	और-पुरुष	
<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5221</a>		<a href="#">H0376</a>	

“और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालता है तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए।

נֶפֶשׁ:	תָּחַת	נֶפֶשׁ	יִשְׁלַחְנָה	בְּהֵמָה	וּמִכָּה	18
प्राण	बदले	प्राण	बदला-दे	पशु-के	प्राण-और-मारनेवाला	
<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H5315</a>		<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H5221</a>

यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जानवर को मार डालता है तो उसके बदले में उसे दूसरा जानवर देना चाहिए।

לֹא:	עָשָׂה	כֵּן	עָשָׂה	כְּאִשֶּׁר	בְּעֵמִיקוֹ	מוֹם	יָתֵן	כִּי-	וְאִישׁ	19
उसे	किया-जाए	वैसा	किया	जैसा	अपने-पड़ोसी-में	दोष	दे	यदि-	और-पुरुष	
					<a href="#">H5997</a>		<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H0376</a>	

“यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोस में किसी को चोट पहुँचाता है तो वसन व्यक्ति को उसी प्रकार की चोट उस व्यक्ति को पहुँचानी चाहिए।

בְּאָרְם	מוֹם	יָתֵן	כְּאִשֶּׁר	שֵׁן	תָּחַת	שֵׁן	עֵין	תָּחַת	שֵׁבֶר	תָּחַת	שֵׁבֶר	20	
आदमी-में	दोष	दे	जैसा	दाँत	बदले	दाँत	आँख	बदले	आँख	टूटने	बदले	टूटना	
<a href="#">H0120</a>		<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H8127</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H8127</a>		<a href="#">H8478</a>		<a href="#">H7667</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H7667</a>	
										בּוֹ:	יָתֵן	כֵּן	
										उसे	दिया-जाए	वैसा	
											<a href="#">H5414</a>		

एक टूटी हड्डी के लिए एक टूटी हड्डी, एक आँख के लिए एक आँख, और एक दाँत के लिए दाँत। उसी प्रकार की चोट उस व्यक्ति को पहुँचानी चाहिए, जैसा उसने दूसरे को पहुँचाई है।

יּוֹמָת:	אָדָם	וּמִכָּה	יִשְׁלַחְנָה	בְּהֵמָה	וּמִכָּה	21
मरे	आदमी	और-मारनेवाला	बदला-दे	पशु	और-मारनेवाला	
<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H5221</a>		<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H5221</a>	

इसलिए जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जानवर को मारे तो इसके बदलने में उसे दूसरा जानवर देना चाहिए। किन्तु जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालता है वह अवश्य मार डाला जाना चाहिए।

22 מִשְׁפָּט אֶחָד יְהִינָה לָכֶם כְּנֹר כְּאֹזֶרֶת יְהִינָה כִּי אָנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם :  
 न्याय एक होगा तुमको परदेशी-जैसा परदेशी-जैसा होगा क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारे-परमेश्वर  
[H0430](#) [H3068](#) [H0589](#) [H1961](#) [H0249](#) [H1616](#) [H1961](#) [H0259](#) [H4941](#)

“तुम्हारे लिए एक ही प्रकार का न्याय होगा। यह विदेशी और तुम्हारे अपने देशवासी के लिए समान होगा। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।”

23 וַיִּדְבֹר וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּצִיאֵם אֶת-הַמִּקְלָל אֶל-מַחֲוֵי לְמַחְנֵה  
 और-बोला और-बोला मूसा से- पुत्रों इस्त्राएल-के और-निकाला को- शाप-देनेवाले के-पास- बाहर के-पास- बाहर के-  
[H4264](#) [H2351](#) [H0413](#) [H7043](#) [H0853](#) [H3318](#) [H3478](#) [H0413](#) [H4872](#) [H1696](#)

— וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ אֲבָן וּבְנֵי-יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כְּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה :  
 और-पथराया उसे पत्थर और-पुत्रों- के इस्त्राएल-के किया जैसा- आज्ञा-दी यहोवा-ने को- मूसा :  
[H4872](#) [H0853](#) [H3068](#) [H6680](#) [H3478](#) [H0068](#) [H0853](#) [H7275](#)

तब मूसा ने इस्त्राएल के लोगों से बात की और वे उस व्यक्ति को डेरे के बाहर एक स्तान पर लाए, जिसने शाप दिया था। तब उन्होंने उस पत्थरों से मार डाला। इस प्रकार इस्त्राएल के लोगों ने वह किया जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।